



भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा 2023-2027

प्रलिस के ललल:

नीतीआयोग, संयुक्त राष्ट्र, सतत् विकास लक्ष्य (SDG), भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा 2023-2027

मेन्स के ललल:

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा (GoI-UNSDCF) 2023-2027, SDG से संबंघती पहल

चर्चा में क्यों?

हल ही में नीतीआयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा (Government of India-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (GoI-UNSDCF) 2023-2027 पर हस्ताक्षर कल।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा इस ढाँचे को देश स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली हेतु प्रमुख योजना और कार्यान्वयन साधन के रूप में नामती करती है।
- यह ढाँचा विकास हेतु भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखती करता है और इसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals- SDG) को प्राप्त करना है, जसमें लैंगती समानता, युवा सशक्तीकरण एवं मानव अधिकारों पर ज़ोर दलया गया है।

प्रमुख बढु

- सामरकती स्तंभ और परणाम क्षेत्र:
 - GoI-UNSDCF 2023-2027 को एजेंडा, 2030 से प्राप्त चार सामरकती स्तंभों पर बनाया गया है:
 - लोग, समृद्धती, ग्रह और भागीदारी।
 - चार स्तंभों में छह परणाम क्षेत्र शामिल हैं:
 - स्वास्थ्य और कल्याण
 - पोषण और खाद्य सुरक्षा
 - गुणवत्तापूरण शकती
 - आर्थकती विकास और उचती कार्य
 - पर्यावरण, जलवायु, WASH (जल, सफाई और स्वच्छता) तथा सुनम्यता
 - लोगों, समुदायों और संस्थानों को सशक्ती बनाना
- लक्ष्य:
 - GoI-UNSDCF सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण एवं दक्षण-दक्षण सहयोग (South-South Cooperation) पर वशेष बल देता है, यह सतत् विकास लक्ष्यों को लागू करने और उसमें तेज़ी लाने में भारत के नेतृत्व के साथ सामंजस्य स्थापती करता है।
 - “SDG स्थानीयकरण” स्थानीय स्तर पर SDG को व्यावहारकती रूप देने की प्रक्रया है, जो राष्ट्रीय ढाँचे और समुदायों की प्राथमकतीओं के अनुरूप हो।
 - भारत का लक्ष्य वशिव स्तर पर अपने विकास मॉडल प्रदर्शती करना और दक्षण-दक्षण सहयोग को सक्रय रूप से बढावा देना है।
- कार्यान्वयन और नगरानी:
 - GoI-UNSDCF 2023-2027 के कार्यान्वयन, नगरानी और रपौरटगती का संयुक्त संचालन एक संयुक्त संचालन समती के माध्यम से भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कलया जाएगा।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG):

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को वैश्वकती लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह

की रक्षा और वर्ष 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था।

- 17 SGD एकीकृत हैं- इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करेगी और इनके अंतर्गत **सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय रूप से स्थिर/वहनीय विकास** होगा।
- यह पछिड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है।
- SDG को **गरीबी, भुखमरी, एड्स** और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिये बनाया गया है।
- भारत ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से SDG के 13वें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं।
 - यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है।

//





UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2016)

1. सतत वकिस लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्वकि वचिर मंडल (थकि टैंक), जसि 'क्लब ऑफ रोम' कहा जाता था, ने प्रस्तावति कयिा था ।
2. सतत वकिस लक्ष्य 2030 तक प्राप्त कयि जाने हैं ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/goi-unsdcf-2023-2027>

